

जमाने में 15 से 20 लाख तक लोगों को रोजगार मिलता था, जबकि आज एक लाख लोगों को भी नहीं मिलता। एक करोड़ रोजगार देने की बात हो रही थी, लेकिन दिया नहीं है। इसकी वजह से ही यह बात है। इसमें सबसे बुरी बात यह है कि इसके कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मुझे यह सबसे गंभीर बात लग रही है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट को इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए।

सर, इसके साथ-साथ मुस्लिम समाज की स्थिति सबसे बुरी है, यह सबको मालूम है, अभी जावेद भाई ने इसका जिक्र भी किया। मैं कहूंगा कि मुस्लिम समाज को कम से कम शिक्षा में ही रिजर्वेशन देना चाहिए। इसके बारे में मुम्बई हाई कोर्ट ने भी कहा है। गढ़िया समाज के लिए रिजर्वेशन के बारे में समाज को सोचना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: हम मराठा आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

श्री हुसैन दलवाई: सर, सरकार को ये तीन चीजें जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूँ कि वह इनके बारे में जल्दी हल निकाले।

श्रीमती वंदना चव्हाण (महाराष्ट्र): महोदय मैं स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करती हूँ।

श्री सभापति: प्रो. मनोज कुमार झा।

Demand of the Several Social Groups for reservation

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): सभापति महोदय, देश के अलग-अलग हिस्सों में आरक्षण को लेकर आवाजें उठ रही हैं। अभी हुसैन दलवाई साहब ने मराठा आंदोलन का जिक्र किया, मेरा मानना है कि अलग-अलग हलकों में, अलग-अलग सामाजिक समूहों में आरक्षण को लेकर एक आवाज उठ रही है। मैं सदन के माध्यम से तमाम जिम्मेवार सत्ता और विपक्ष के नेता से कहना चाहूंगा कि आरक्षण के लिए संविधान सभा की बैठकों में यह तय हुआ था कि यह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह प्रतिनिधित्व का मामला है, लेकिन 1991 के बाद हमने जो विकास की एक नव-उदारवादी पूंजीवाद की शक्ति अख्तियार कर ली, उसकी वजह से समानता के महासागर में पांच समृद्धि के टापू बने। जाति और गरीबी पिछड़ेपन का सीधा रिश्ता है, लेकिन कई अन्य जातियां, जो आरक्षण की मांग कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि संजीदगी से सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना के आंकड़े, सत्ता प्रतिष्ठान से हाथ जोड़ कर आग्रह करता हूँ कि उसको जारी कीजिए। जातियों को पता चले कि उनकी आबादी कितनी है, उनकी अवस्थिति कितनी है। सर, उसके अभाव में अलग-अलग हलकों में जो यह आवाज उठ रही है, यह ज्वालामुखी में तब्दील हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें इसको संजीदगी से एप्रोच करने की जरूरत है, अन्यथा यह ज्वालामुखी सब लील जाएगी, हमारी उपलब्धियों को भी लील जाएगी।

श्री सभापति: ठीक है, थैंक यू। श्री के.सी. राममूर्ति।

Need to include the World Heritage site Hampi in the 'Must See List' of the ASI

SHRI K. C. RAMAMURTHY (Karnataka): Sir, all of us know that Hampi, the capital of Vijayanagara Empire in Karnataka is recognised globally for its temple complexes